
कर्मभोग के 12 गुह्य सूत्र

➤➤ कर्म सिद्धांत / कर्मों की गुह्य गति

➤➤ _ ➤➤ जो बीज आपने बोया था

→ आपको उसी का फल मिल रहा है

➤➤ _ ➤➤ जब हम किसी परिस्थिति को एक काल की दृष्टि से देखते हैं तो

→ हमें बहुत दुःख होता है

➤➤ _ ➤➤ जब हम त्रिकालदर्शी होकर रहेंगे तो

→ स्थिति एकरस रहेगी

➤➤ ड्रामा

➤➤ _ ➤➤ बनी बनाई बन रही

→ Everything Is Preplanned

➤➤ _ ➤➤ यह ड्रामा तुम्हें पसंद आना चाहिए

→ क्योंकि यह ड्रामा बाप को पसंद है

➤➤ _ ➤➤ इस ड्रामा का हर एक्टर सिर्फ निर्दोष नहीं

→ बल्कि सम्पूर्ण निर्दोष है

■ सिर्फ इस एक बात को समझ लेने से सभी झगड़े खत्म हो

जायेंगे

➤➤ _ ➤➤ सकुचित Vision के साथ देखते हैं तो हमें इस ड्रामा में पक्षपात

दिखाई देता है

→ त्रिकालदर्शी होकर देखेंगे तो हमें ड्रामा न्यायकारी दिखाई देगा

➤➤ _ ➤➤ इस ड्रामा का प्रत्येक पेपर हमें शक्तिशाली बनाने आता है

→ कठिन से कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद...

■ उसका परिणाम निकलेगा :- विकास और स्व उन्नति

■ तुम वो नहीं रहोगे... जो अब हो...

▶ क्योंकि अनुभव जुड़ जाएगा चेतना के साथ

➤➤ आत्मा अभिमानी स्थिति

➤➤ _ ➤➤ शारीरिक व्याधि आने से पहले जितना "आत्मा" का अभ्यास किया

होगा

→ वह उतना अधिक मदद करेगा

➤➤ परमात्म याद

➤➤ _ ➤➤ याद में Healing Energy है

» _ » Purity Is The Most Powerful Pain Killer

»» विचार सागर मंथन

» _ » बुधी को ज्ञान मंथन में पूरी तरह से बिजी कर दो

»» मनसा सेवा

» _ » हर्षित चेहरा बहुत सेवा करता है

»» Find Out Mistakes In Your Life Style

» _ » क्या खान पान में गड़बड़ है ?

→ जीभ पर संयम नहीं था ?

» _ » क्या Physical Exercise नहीं करते ?

» _ » योग के लिए 2 चीज़ों का खाली होना ज़रूरी है

→ बुधी और पेट

» _ » If You Can Control The Taste

→ You Can Control All Other Senses Very Easily

» _ » ब्रह्मचर्य का आधार है

→ भोजन पर संयम

» _ » जिसने रसंद्रियों को नहीं जीता

→ वह जनेंद्रियों को कैसे जीतेगा ?

» _ » Planning :- पलंग पर बैठकर Future Planning करो

»» Visualization

» _ » मानस पटल पर स्वयं के स्वस्थ शरीर को Visualise कीजिये

»» स्वमानो का अभ्यास कीजिये

» _ » मैं बिलकुल ठीक हूँ

» _ » मैं निरोगी हूँ

» _ » मेरा शरीर सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ है

» _ » If You Firmly Deny

→ Even Then, Venom Of The Snake Is Poisonless

»» योग निद्रा

» _ » सोने से तुरंत पहले और उठने के तुरंत बाद

→ जो संकल्प करेंगे

■ वह संकल्प सिद्ध होगा

➤➤ Order Your Body

➤➤ _ ➤➤ हे अंग

→ तुझे अब सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है

➤➤ Thank You / Gratitude

➤➤ _ ➤➤ वाह व्याधि वाह

➤➤ _ ➤➤ धन्यवाद में बहुत +ve एनर्जी है
